



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 44] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 1—नवम्बर 7, 2003 (कार्तिक 10, 1925)
No. 44] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 1—NOVEMBER 7, 2003 (KARTIKA 10, 1925)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

PART III—SECTION 1

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications Issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India]

संघ लोक सेवा आयोग

दिनांक 22 सितम्बर 2003

नई दिल्ली-110069, दिनांक 04 सितम्बर 2003

सं. ए-19014/2/2002-प्रशा-1--स्थापना अधिकारी का कार्यालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 25 अगस्त, 2003 के का. झा. सं. 21/4/2002--ई.ओ. (एम.एम.1) के तहत श्री संतोष कुमार, आई. डी.ए.एस.(91) की अपने मूल संवर्ग में समयपूर्व प्रत्यावर्तन के अनुरोध को स्वीकार करने के परिणामस्वरूप दिनांक 4 सितम्बर, 2003 अप. से आयोग कार्यालय में उप सचिव के उनके कार्यभार से मुक्त किया जाता है। उन्हें अपने मूल संवर्ग में संयुक्त, सम्मिलित रक्षा सेवा, क्षेत्रीय कार्यालय (पी डी) दिल्ली कैंट में रिपोर्ट करने का अनुदेश दिए जाते हैं जहां उन्हें सी जी डी ए कार्यालय के दिनांक 29 अगस्त, 2003 के पत्र सं. 1/1344/5/पी. एफ. के तहत तैनात किया गया है।

एस. आनन्दन
अवर सचिव (प्रशा.)

सं. ए. 19014/11/2003-प्रशा-1--स्थापना अधिकारी का कार्यालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 1 सितम्बर, 2003 के का. झा. सं. 31/10/2003-ई.ओ. (एम.एम.1) के तहत केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी श्री मंगलसिंह को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग संघ लोक सेवा आयोग में स्थानांतरण के फलस्वरूप उनको संघ लोक सेवा आयोग में 3 सितम्बर, 2003 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक, अवर सचिव के रूप में नियुक्त किया जाता है।

एस. आनन्दन
अवर सचिव (प्रशा.)

दिनांक 7 अक्टूबर 2003

सं. ए. 32013/1/2001-प्रशा. 2--अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग इस कार्यालय की दिनांक 30-6-2003 की समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में एतद्वारा आयोग कार्यालय के वरिष्ठ प्रोग्रामर डॉ. ए. के. नाथिया

को दिनांक 25-09-2003 से 24-12-2003 तक तीन महीने की अवधि के लिए, अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में रु. 12000-375-16500/- के वेतनमान में तदर्थ पदोन्नति आधार पर प्रबंधक (एस. डी.) एवं सी. पी. (सामान्य केन्द्रीय सेवा ग्रुप 'क', राजपत्रित) (अननुसंधितीय) के रूप में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त करते हैं।

प्रबंधक (एस. डी.) एवं सी. पी. के रूप में उपर्युक्त अधिकारी की यह नियुक्ति पूर्णतया तदर्थ आधार पर है तथा इससे उन्हें प्रबंधक (एस. डी.) एवं सी. पी. के ग्रेड में नियमित नियुक्ति अथवा वरिष्ठता का कोई हक नहीं मिलेगी।

एस. आनन्दन
अवर सचिव (प्रशा.)
कृते अध्यक्ष

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली-110 003, दिनांक 30 सितम्बर 2003

सं. डीपी/एडी.5/2003/4055/3/35/2003-प्रशा.5--राष्ट्रपति ने श्री संदीप खिरवार, भा.पु. सेवा (हरियाणा : 1995) को 28 अगस्त, 2003 पूर्वाह्न से 27-08-2007 तक चार वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में पुलिस अधीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

श्री एस.के. खरे बनाम भारत सरकार सीडब्ल्यूपी सं. 3755/2001 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 30.07.2002 के अंतरिम आदेश को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधीक्षक, के. अ. ब्यूरो के रूप में श्री संदीप खिरवार, भा.पु. सेवा की नियुक्ति भारत सरकार के विरुद्ध श्री नवीन गोयल एवं अन्यो द्वारा केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, प्रधान न्यायपीठ, दिल्ली में दायर ओए सं. 773/2001 में आगे दिए जाने वाले आदेशों के अधधीन है।

एस. डी. बैजल
प्रशासन अधिकारी (स्थापना)

दिनांक 1 अक्टूबर 2003

सं. डीपी/एडी.5/2003/04088/3/35/92-प्रशा.5--श्री टी.एम. चण्डी ने अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर 30-09-2003 (अपराह्न) से वरिष्ठ लोक अभियोजक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पद का कार्यभार त्याग दिया।

एस. डी. बैजल
प्रशासन अधिकारी (स्थापना)

दिनांक 13 अक्टूबर 2003

सं. डीपी/एडी.5/2003/4368/3/44/2002-प्रशा.5--इस समय के.अ. ब्यूरो में प्रतिनियुक्ति आधार पर पुलिस उपाधीक्षक के रूप में कार्यरत

श्री शरत कुमार वासुदेव राव की सेवाएं, समयपूर्व प्रत्यावर्तन पर, तत्काल 07-10-2003 (अपराह्न) से महाराष्ट्र राज्य मुंबई सिटी पुलिस को वापस सौंपी जाती है।

एस. डी. बैजल
प्रशासन अधिकारी (स्थापना)

दिनांक 15 अक्टूबर 2003

सं. डीपी/एडी.5/2003/4430/3/47/91-प्रशा.5--श्री एल.एस. गोंडके ने अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर 30 सितंबर, 2003 अपराह्न से कार्यालय अधीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पद का कार्यभार त्याग दिया।

एस. डी. बैजल
प्रशासन अधिकारी (स्थापना)

सं. डीपी/एडी.5/2003/4431/3/34/2001-प्रशा.5--श्री रूपिन शर्मा, भा.पु. सेवा (नागालैंड : 1992), सहायक निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नई दिल्ली की सेवाएं, प्रत्यावर्तन पर, 15 सितम्बर, 2003 अपराह्न से नागालैंड सरकार को वापस सौंप दी गई है।

एस. डी. बैजल
प्रशासन अधिकारी (स्थापना)

नई दिल्ली-110 003, दिनांक 9 अक्टूबर 2003

सं. डीपी/एडी.1/2003/3630/ए-34012/9/2000--श्री एच. एल. सलूजा, वैयक्तिक सहायक ने 16-09-2003 पूर्वाह्न से पदोन्नति पर निजी सचिव, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पद पर कार्य ग्रहण कर लिया है।

पंकज संक्सेना
पुलिस अधीक्षक (कार्मिक)

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)
चलार्थ पत्र मुद्रणालय

नासिक रोड, दिनांक 18 अक्टूबर 2003

सं. 06-एस/ईएससी-1-15--श्री ए. एस. बेलगांवकर, कनिष्ठ लेखा अधिकारी, को लेखा अधिकारी वर्ग 'ख' राजपत्रित के पद पर स्पष्ट रूप से तदर्थ आधार पर रु. 7,450-225-11,500/- के वेतनमान में दिनांक 17.09.2003 से 16.03.2004 तक अथवा सहायक निदेशक (लागत) का पद भरे जाने तक, जो भी पहले हो, पदोन्नत किया जाता है।

उक्त तदर्थ पदोन्नति पदोन्नत कर्मचारी को स्थाई नियुक्ति के लिए दावा अर्जित नहीं कराती और उनके द्वारा की गई तदर्थ सेवा उस श्रेणी में वरिष्ठता पदोन्नति क्री पात्रता आदि के लिए गिनी नहीं जाएगी।

अ. ना. इंगले
महाप्रबंधक

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग
[महालेखाकार (लेखा व हक) का कार्यालय, कर्नाटक]

बेंगलूर, दिनांक 30 सितम्बर 2003

सं. स्थापना 1/ए8/2003-2004/185--महालेखाकार (ले. व ह.) ने श्री ए. सी. नटराज कर्मचारी कोड सं. 19730105 लेखाधिकारी को पूर्णतया अस्थाई रूप में रुपये 8,000-275-13,500/- के वेतनमान पर दिनांक 30.09.2003 के पूर्वाह्न से अथवा कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से (जो भी बाद में हो) अगले आदेश तक व लेखा अधिकारी के रूप में पदोन्नत किया है।

02. मूल नियमावली के नियम 22-1(ए)(1) के अनुसार उच्चतर वेतनमान पर वेतन निर्धारण करने के लिए पदोन्नति की तारीख से एक महीने के अंदर उन्हें अपना विकल्प देना होगा।

ह./- अपठनीय
वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन)

सं. स्थापना 1/ए8/ए.ओ./2003-2004/186--महालेखाकार (ले. व ह.) ने श्री पी. बी. गणेश, कर्मचारी कोड सं. 19740524 सहायक लेखाधिकारी को पूर्णतया अस्थाई रूप में रुपये 7,500-275-12,000/- के वेतनमान पर दिनांक 30.09.2003 के पूर्वाह्न से अथवा कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से (जो भी बाद में हो) अगले आदेश तक लेखा अधिकारी के रूप में पदोन्नत किया है।

02. मूल नियमावली के नियम 22-1(ए)(1) के अनुसार उच्चतर वेतनमान पर वेतन निर्धारण करने के लिए पदोन्नति की तारीख से एक महीने के अंदर उन्हें अपना विकल्प देना होगा।

ह./- अपठनीय
वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन)

लघु उद्योग मंत्रालय
विकास आयुक्त (लघु उद्योग) का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 15 अक्टूबर 2003

सं. ए-19018/1040/89-प्रशा. (राज.)--श्रीमती अमृता मूर्ति, सहायक निदेशक (ग्रेड-I) (वैद्युत), लघु उद्योग सेवा संस्थान, बंगलूर, स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के तहत 01.10.2003 (पूर्वाह्न) से सरकारी सेवा से सेवा-निवृत्त हो गई है।

एस. वी. एन. पिल्लै
उप निदेशक (प्रशा.)

सं. ए-19018/1681/2003-प्रशा. (राज.)--विकास आयुक्त (लघु उद्योग), लघु उद्योग सेवा संस्थान, हैदराबाद में लघु उद्योग संवर्द्धन अधिकारी (यांत्रिकी), श्री के. पी. प्रसन्ना राव को लघु उद्योग विकास संगठन अंतर्गत रु. 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में लघु उद्योग सेवा संस्थान, गुवाहाटी में सहायक निदेशक (ग्रेड-II) (यांत्रिकी) स्थापना

आधारित के पद पर दिनांक 29.09.2003 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश जारी होने तक नियुक्त करते हैं।

एस. वी. एन. पिल्लै
उप निदेशक (प्रशा.)

खान मंत्रालय
(भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण)

कोलकाता-700016, दिनांक 17 अक्टूबर 2003

सं. 5235/बी/ए-19011(1-एस.जी.)/03/19ए--राष्ट्रपति जी, सुश्री सुस्मिता गुप्ता को भूवैज्ञानिक (कनिष्ठ) के पद पर भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में 8,000-275-13,500/- रुपये के वेतनमान के न्यूनतम वेतन में अस्थाई रूप में आगामी आदेशों तक 14.07.2003 के पूर्वाह्न से नियुक्त करते हैं।

एस. के. सिन्हा
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
कृते महानिदेशक

भारतीय खान ब्यूरो

नागपुर, दिनांक 10 अक्टूबर 2003

सं. ए-31013/27/2003-स्था. ए--विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर भारतीय खान ब्यूरो के निम्नलिखित अधिकारी को उनके नाम के सामने दी गई तारीख से सहायक भण्डार अधिकारी के पद पर स्थायी किया जाता है :-

1. श्री के. एन. के. विश्वनाथम 8.1.2003

एस. चंद्रमौली
कार्यालय अध्यक्ष

नागपुर, दिनांक 14 अक्टूबर 2003

सं. ए-19011/542/97-स्था.ए--सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय विभाग, नई दिल्ली के जारी आदेश संख्या 12015/8/2003-आईएसएस दिनांक 26.9.2003 के अनुसार श्री जी. डब्ल्यू. भोवते, ग्रेड (IV) ज्युनियर टाईम स्केल [सहायक खनिज अर्थशास्त्री (सांख्यिकी) का] ग्रेड-III (सीनियर टाईम स्केल) उप खनिज अर्थशास्त्री (सांख्यिकी) के पद पर रु. 10,000-325-15,200/- के वेतनमान में दिनांक 29.9.2003 (पूर्वाह्न) से तदर्थ आधार पर पदोन्नती की जाती है।

बी. सूद
सहायक प्रशासन अधिकारी

भारतीय सर्वेक्षण विभाग
(महासर्वेक्षक का कार्यालय)

देहरादून-248001, दिनांक 13 अक्टूबर 2003

सं. सी-273/718-ए--निम्नलिखित कार्यालय अधीक्षकों को भारतीय सर्वेक्षण विभाग में स्थापना एवं लेखा अधिकारी (सामान्य केन्द्रीय सेवा ग्रुप 'बी') के पद पर रुपये 7450-225-11,500/- के वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख दर्शाई गई तिथि से नियमित आधार पर पदोन्नत किया जाता है :-

क्रम सं.	नाम	पदोन्नति की तिथि
1.	श्री एस. मकबूल अहमद	29.08.2003
2.	श्री बी. वेन्कटेश्वरा राव	25.08.2003
3.	श्री आर. सी. सकरवाल	01.08.2003
4.	श्री इन्द्रजीत सिंह	26.09.2003

डॉ. पी. नाग
भारत के महासर्वेक्षक

सं. सी-287/594--निम्नलिखित सीनियर रिप्रोग्राफरों को भारतीय सर्वेक्षण विभाग में उनके नाम के सम्मुख दर्शायी गई तिथि से नियमित आधार पर सहायक प्रबन्धक (मानचित्र पुनरुत्पादन) (सामान्य केन्द्रीय सेवा ग्रुप 'बी' राजपत्रित) के पद पर रुपये 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में पदोन्नत किया जाता है :-

क्रम सं.	नाम	पदोन्नति की तिथि
1.	श्री एन. एस. कण्डारी (अनुसूचित जन जाति)	11.09.2003
2.	श्री अकील अहमद	11.09.2003
3.	श्री आर. पी. शर्मा	11.09.2003
4.	श्री जनक राम (अनुसूचित जाति)	11.09.2003
5.	श्री टी. के. मुखर्जी	01.10.2003

डॉ. पृथ्वीश नाग
भारत के महासर्वेक्षक

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र
(कार्मिक प्रभाग)

मुम्बई-400085, दिनांक 7 अक्टूबर 2003

सं. जीएफ/38/स्थापना-1/2734--भारत के राष्ट्रपति परमाणु ऊर्जा विभाग के 'क' वर्ग के निम्नलिखित अधिकारियों/इंजीनियरों को उनके नाम के आगे लिखी गई तारीख से मूल पद पर नियुक्त करते हैं :-

क्रमांक	नाम	प्रारंभिक नियुक्ति का ग्रेड/पद	पुष्टिकरण की संस्तुति तिथि
1	2	3	4
1.	श्री संतोष कुमार	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2001
2.	डॉ. (श्रीमती) सुवर्णा शिवप्रकाश रेडकर	वैज्ञानिक अधिकारी/एफ	01.10.2002

1	2	3	4
3.	डॉ. वनश्री प्रभाकर सापले	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	01.04.2003
4.	डॉ. (श्रीमती) वंदना त्रिपाठी	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	01.04.2003
5.	डॉ. (श्रीमती) गीता संदीप मोतीसाले	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	01.04.2003
6.	डॉ. भक्तुल मोहन नलावडे	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	01.04.2003
7.	डॉ. (श्रीमती) शिप्रा चौधरी	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	01.04.2003
8.	श्री अमीत शर्मा	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2003
9.	डॉ. (श्रीमती) जया महेश राजुरकर	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2003
10.	डॉ. विवेक जॉर्ज	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	01.10.2003
11.	श्री जाहूर अलम मंडल	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2003
12.	श्री नितिन मेहरोत्रा	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2003
13.	श्री श्रीनिवास नायक	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2003
14.	श्री नीरज जोशी	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2003
15.	श्री जितेन्द्र कुमार	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2003
16.	श्री हिमांशु कुमार पोसवाल	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2003
17.	श्री वैदेही शरण त्रिपाठी	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2003
18.	श्री मनीश गोस्वामी	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2003
19.	श्री मुरतजा ताहिर सैफी	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2003
20.	श्री प्रशांत कुमार	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2003
21.	श्री सुमित विष्णु प्रसाद	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2003
22.	श्री सुब्रत चटर्जी	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2003
23.	श्री गिरिश्वर शर्मा	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2003
24.	श्री रोहित कुमार एम. चाडके	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2003
25.	श्री अमित कुमार	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2003
26.	श्री अतुल पाण्डेय	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2003
27.	श्री विनय भारद्वाज	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2003
28.	श्री दत्तात्रय पारले	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2003
29.	श्री अभिषेक मित्तल	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2003
30.	श्री गौरव भुयानी	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2003

1	2	3	4
31.	श्री टी. जेसन	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2003
32.	श्री बरेन्द्र कुमार राणा	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2003
33.	श्री प्रेम शशिधरन	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2003

अन्टेनी डिजा
नियंत्रक

सं. जीएफ/38/स्था./वन ए/2737--संपूर्ण निम्नलिखित परमाणु ऊर्जा विभाग के वर्ग ए के वैज्ञानिक अधिकारियों/इंजीनियरों को उनके नाम के सामने दर्शायी तिथि से स्थायी रूप में नियुक्त करते हैं :--

संख्या	नाम	वर्तमान ग्रेड	स्थायीकरण की तिथि
--------	-----	---------------	-------------------

1	2	3	4
---	---	---	---

01.	श्री सुजाय चटर्जी	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2002
02.	श्री एस. तिरुमलकोन मणीकंडण	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2002
03.	डॉ. श्रीमती मनमोत कौर	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	01.04.2003
04.	डॉ. प्रताप बाबूराव बाघ	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	01.04.2003
05.	श्री संजय विश्वासराव इंगले	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.04.2003
06.	श्री भास्कर सन्याल	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.04.2003
07.	कु. महुआ बासू	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2003
08.	श्री ईश्वरन अलगु राजा	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2003
09.	श्री शुभांशु साहु	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2003
10.	श्री अमोल सदानंद करंदीकर	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2003
11.	श्री गौरव कुमार पान्डेय	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2003
12.	श्री ज्योतिराम विलास राव माने	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2003
13.	श्रीमती रंजना कलरा	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2003
14.	श्री रमेश चंद्र शर्मा	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2003

1	2	3	4
15.	श्री पिला वेंकट सुनील नाग	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2003
16.	श्री भास्कर साई प्रसाद एम.	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2003
17.	श्री जिनेश थॉमस	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2003
18.	श्री मोली सुभाष विष्णु	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2003
19.	श्री विजया गोपाल पेरु मल	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2003
20.	श्री चम्पालाल प्रजापत	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2003
21.	कु. रेखु कसेरा	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2003
22.	कु. गणपति कोदे	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2003
23.	श्री वेद प्रकाश सिन्हा	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2003
24.	श्री थोडम सत्येंद्रा	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2003
25.	श्री सविन कुमार	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2003
26.	श्री सिद्धार्थ प्रमाणिक	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2003
27.	श्री संतोष श्रीधर यादवाड	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2003
28.	श्री वाटे भगवान नारायण	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2003
29.	श्री अमर दीप कुमार	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2003
30.	कु. रेणुका देशपांडे	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2003
31.	श्री शेष शिला भारद्वाज	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2003
32.	श्री वेंकट पिनाका पानी कोंडपायी	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2003
33.	श्री अमित सचदेव	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2003
34.	कु. नीतिका रावत	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2003
35.	श्री धर्मेन्द्र कुमार मोर्य	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2003
36.	श्री अमित कुमार मिश्रा	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2003
37.	श्री प्रवीण कुमार सुग्गीसेट्टी	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2003
38.	श्री सौमेन सरकार	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2003

अन्टेनी डिजा
नियंत्रक

सं. जीएफ/38/स्थापना 2/2738--राष्ट्रपति, परमाणु ऊर्जा विभाग के वर्ग ए के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों/इंजीनियरों, को उनके नाम के सामने दर्शायी तिथि से स्थायी रूप में नियुक्त करते हैं :--

सं.	नाम	वर्तमान ग्रेड	स्थायीकरण की तिथि
1	2	3	4
1.	श्री बिपलाब ठाकुर	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.1998
2.	श्री लोकपाल सिंह पटेल	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.04.2002
3.	श्री राघवेंद्र कुमार	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2002
4.	श्री मुकेश रावलदास कुरेजा	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2002
5.	श्री देवजित राक्षित	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2002
6.	कुमारी माधुरी शिवप्पा किच्छड	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2002
7.	श्री अजय कुमार सिंह तोमर	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.04.2003
8.	श्री अतुल कुमार मल्लिक	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2003
9.	श्री मनोज संतोष चौधरी	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2003
10.	श्री श्रवण कुमार	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2003
11.	श्री मडला कल्याण चक्रवर्ती	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2003
12.	श्री दीपक द्वारकादास पटेल	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2003
13.	कुमारी नलिनी सिंह	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2003
14.	श्री प्रितेश जोहरी	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2003
15.	श्री आशिष ठाकुर	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2003
16.	श्री दिव्या कुमार दीक्षित	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2003
17.	श्री स्वामी शरण	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2003
18.	श्री संतोष कुमार मिश्रा	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2003
19.	श्री रितेश बंसल	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2003
20.	श्री मिथिलेश कुमार	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2003
21.	श्री निशांत कुमार	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2003
22.	श्री चंद्रा भूषण पटेल	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2003

1	2	3	4
23.	श्री दुंपा राघवेंद्र	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2003
24.	श्री धीरेंद्र कुमार झा	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2003
25.	श्री प्रवण कुमार ईमानी	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2003
26.	श्री दुर्गा राय करंकी	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2003
27.	श्री चिराग अरविंदभाई पटेल	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2003
28.	श्री रमेश बलराम सबन्नवार	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2003
29.	श्री सचिन अगरवाल	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2003
30.	श्री मुंकुद खुशवाह	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2003
31.	श्री मुकेश कुमार साहू	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2003
32.	श्री कमल शर्मा	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2003
33.	श्री पुष्परज सिंह कौरव	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2003
34.	श्री अनिरुद्ध धाराशिवकर	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2003
35.	श्री कोडापुल्ली मधु	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2003
36.	कुमारी मौसमी सेनगुप्ता	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2003
37.	डॉ. अनंदय चक्रवर्ती	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	01.10.2003
38.	श्री मरुर प्रभाकरन नायर श्रीकुमार	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2003
39.	श्री जिनेंद्र कचरू लाल गुगालिया	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2003
40.	श्री कांचन गराबन	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2003
41.	श्री पियुष प्रसाद	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2003
42.	श्री माधवा बालकृष्ण मल्ल्या	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2003

अन्टोनी डिसा
नियंत्रक

मुंबई-85, दिनांक 10 अक्टूबर 2003

संदर्भ : पीडी/7 (1)/2002-आर-III/1338 :--नियंत्रक भाषा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, श्री पी. एम. मॅथ्यू, सहायक लेखाकार, भाषा केन्द्र, को दिनांक 25.09.2003 (अपराह्न) से, आगामी आदेशों तक

रु. 7,450-225-11,500/- के वेतनमान में इस अनुसंधान केन्द्र में सहायक लेखा अधिकारी के पद पर नियमित रूप से नियुक्त करते हैं।

के. सी. दिवाकरन
उप-स्थापना अधिकारी

सं. पीडी/7 (1)/2002-आर-III/1339--नियंत्रक भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, भारी पानी संयंत्र (मणुगुल) के सहायक लेखाकार, श्री बी सत्यनारायणा को दिनांक 06.10.2003 (पूर्वाह्न) से, आगामी आदेशों तक रु. 7,450-225-11,500/- के वेतनमान में इस अनुसंधान केन्द्र में सहायक लेखा अधिकारी के पद पर नियमित रूप से नियुक्त करते हैं।

के. सी. दिवाकरन
उप-स्थापना अधिकारी

दिनांक 14 अक्टूबर 2003

सं. पीडी/4 (4)/2001-आर-III/1348--नियंत्रक भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, श्री स्वामिनाथन एन, लेखा अधिकारी, पी आर पी, कल्पक्कम, को दिनांक 01.11.2002 (पूर्वाह्न) से, आगामी आदेशों तक रु. 8,000-275-13,500/- के वेतनमान में पी आर पी, कल्पक्कम में वरिष्ठ लेखा अधिकारी के पद पर नियमित रूप से नियुक्त करते हैं।

के. सी. दिवाकरन
उप-स्थापना अधिकारी

परमाणु ऊर्जा विभाग

मुंबई-400001, दिनांक 09 अक्टूबर 2003

सं. 6 (2321)/2001/प्रशा./1745--राष्ट्रपति, डॉ. सुभाष चंद्र, वैज्ञानिक अधिकारी (जी), (वेतनमान रु. 16,400-450-20,000/-) परमाणु ऊर्जा विभाग को दिनांक 01 अगस्त 2003 के पूर्वाह्न से भावी आदेश होने तक अस्थायी आधार पर इसी विभाग में रु. 18,400-500-22,400/- के वेतनमान में स्थानापन्न रूप में वैज्ञानिक अधिकारी (एच) के पद पर नियुक्त करते हैं।

एम. वेणुगोपालन
स्टाफ संपर्क अधिकारी

सं. 6 (2324)/2001 प्रशा./1746--राष्ट्रपति, श्री ए. वी. आवटी, वैज्ञानिक अधिकारी (एफ), (वेतनमान रु. 14,300-400-18,300/-) परमाणु ऊर्जा विभाग को दिनांक 01 अगस्त 2003 के पूर्वाह्न से भावी आदेश होने तक अस्थायी आधार पर इसी विभाग में रु. 16,400-450-20,000/- के वेतनमान में स्थानापन्न रूप में वैज्ञानिक अधिकारी (जी) के पद पर नियुक्त करते हैं।

एम. वेणुगोपालन
स्टाफ संपर्क अधिकारी

निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय

मुंबई-400094, दिनांक 15 अक्टूबर 2003

सं. निसेसंप्रानि/प्र/9 (230)/2003-भर्ती/717--निदेशक, निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग एतद्वारा श्री एम. एस. गंडले, सहायक कार्मिक अधिकारी को इस निदेशालय में रु. 7,500-250-12,000/- के वेतनमान पर दिनांक 09.07.2003 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक प्रशासन अधिकारी-II के रूप में नियुक्त करते हैं।

वी. वी. छलियास
प्रशासन अधिकारी-III

परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय

हैदराबाद-500016, दिनांक 17 अक्टूबर 2003

सं. पखनि-51(59)/2002-पेन/2493--परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग के निम्नलिखित अधिकारी ने अधिवर्धिता प्राप्त करने के दौरान उनके समक्ष उल्लिखित तारीख से अपना कार्यभार छोड़ दिया है :--

क्र.सं.	नाम व पदनाम	कार्यभार से मुक्त होने की तारीख	घटना
1.	श्री एस. के. सक्सेना, वैज्ञानिक अधिकारी-जी	30.09.2003	अधिवर्धिता प्राप्त करने पर
			के. दामोदरन मुख्य प्रशासन एवं लेखा अधिकारी

प्रित एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय
(कम्पनी कार्य विभाग)
कार्यालय कम्पनी रजिस्ट्रार

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मोहन मीकन इन्टरनेशनल लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 18 सितम्बर 2003

सं. 560 (3)/एसईएस/22/55/10771/496--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसर्जन पर मैसर्स मोहन मीकन इन्टरनेशनल लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्ट्रार से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एम. के. बागड़ी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स स्काईलाईन सिव्योरिटीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में ।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 1 अक्टूबर 2003

सं. 560 (3)/एसईएस/125/55/96452/926--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स स्काईलाईन सिव्योरिटीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एम. के. बागड़ी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स पीको कान्ट्रेक्स इन्टरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड के विषय में ।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 6 अक्टूबर 2003

सं. 560 (3)/एसईएस/131/55/80158/4523--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स पीको कान्ट्रेक्स इन्टरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एम. के. बागड़ी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अग्रवाल डायनोस्टिक प्राईवेट लिमिटेड के विषय में ।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 6 अक्टूबर 2003

सं. 560 (3)/एसईएस/164/55/31855--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स अग्रवाल डायनोस्टिक प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एम. के. बागड़ी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स कोमेक इन्डस्ट्रियल रिसोर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में ।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 7 अक्टूबर 2003

सं. 560 (3)/एसईएस/224/55/20036--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स कोमेक इन्डस्ट्रियल रिसोर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एम. के. बागड़ी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एलिमर फाइनान्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में ।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 6 अक्टूबर 2003

सं. 560 (3)/एसईएस/11/55/80273/4515--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स एलिमर फाइनान्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एम. के. बागड़ी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सनमित मार्केटिंग लिमिटेड के विषय में ।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 7 अक्टूबर 2003

सं. 560 (3)/एसईएस/230/55/20459/1059--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स सनमित मार्केटिंग लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एम. के. बागड़ी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अरिस्टो कॉमर्शियल लिमिटेड के विषय में ।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 7 अक्टूबर 2003

सं. 560 (3)/एसईएस/229/55/20058/1062--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स अरिस्टो कॉमर्शियल लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एम. के. बागड़ी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स क्राऊन एग्रो इन्डस्ट्रीज लिमिटेड के विषय में ।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 7 अक्टूबर 2003

सं. 560 (3)/एसईएस/226/55/20458/1071--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स क्राऊन एग्रो इन्डस्ट्रीज लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एम. के. बागड़ी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स कामेट ट्रेड एण्ड इन्डस्ट्रीज लिमिटेड के विषय में ।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 7 अक्टूबर 2003

सं. 560 (3)/एसईएस/228/55/20495/1065--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स कामेट ट्रेड एण्ड इन्डस्ट्रीज लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एम. के. बागड़ी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एनफील्ड मोफा लिमिटेड के विषय में ।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 13 अक्टूबर 2003

सं. 560 (3)/एसईएस/55/91814/1245--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स एनफील्ड मोफा लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एम. के. बागड़ी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ज़ेम ट्रेड एण्ड एजेन्सीज़ लिमिटेड के विषय में ।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 7 अक्टूबर 2003

सं. 560 (3)/एसईएस/227/55/20455/1068--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स ज़ेम ट्रेड एण्ड एजेन्सीज़ लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एम. के. बागड़ी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स प्रगतिशील फिनलीज एण्ड इन्वेस्टमेन्ट लिमिटेड के विषय में ।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 14 अक्टूबर 2003

सं. 560 (3)/एसईएस/59/55/68114/1287--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स प्रगतिशील फिनलीज एण्ड इन्वेस्टमेन्ट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एम. के. बागड़ी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स जे. एस. जी. कन्सल्टेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में ।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 14 अक्टूबर 2003

सं. 560 (3)/एसईएस/64/55/101917/1296--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स जे. एस. जी. कन्सल्टेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एम. के. बागड़ी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स नॉरदर्न हाइड्रो प्रोजेक्ट्स कन्सल्टेन्ट्स लिमिटेड के विषय में ।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 14 अक्टूबर 2003

सं. 560 (3)/एसईएस/58/55/56295/1311--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स नॉरदर्न हाइड्रो प्रोजेक्ट्स कन्सल्टेन्ट्स लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एम. के. बागड़ी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स नॉरदर्न हाइड्रो पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड के विषय में ।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 14 अक्टूबर 2003

सं. 560 (3)/एसईएस/61/55/55520/1293--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स नॉरदर्न हाइड्रो पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एम. के. बागड़ी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स पीपल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के विषय में ।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 14 अक्टूबर 2003

सं. 560 (3)/एसईएस/71/55/107155/1314--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स पीपल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एम. के. बागड़ी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स आर्यन वूलन मिल्स लिमिटेड के विषय में ।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 14 अक्टूबर 2003

सं. 560 (3)/एसईएस/65/05/32924/1308--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स आर्यन वूलन मिल्स लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एम. के. बागड़ी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स निगम कन्सल्टेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में ।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 14 अक्टूबर 2003

सं. 560 (3)/एसईएस/222/05/39556/1317--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स निगम कन्सल्टेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एम. के. बागड़ी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स कृष्णा क्रैसेक प्राईवेट लिमिटेड के विषय में ।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 14 अक्टूबर 2003

सं. 560 (3)/एसईएस/165/55/76487/1356--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स कृष्णा क्रैसेक प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एम. के. बागड़ी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स आई. सी. कैपिटल मार्किट्स लिमिटेड के विषय में ।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 14 अक्टूबर 2003

सं. 560 (3)/एसईएस/134/55/41720/1369--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स आई. सी. कैपिटल मार्किट्स लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एम. के. बागड़ी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स वीनस फिनटेक लिमिटेड के विषय में ।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 14 अक्टूबर 2003

सं. 560 (3)/एसईएस/146/55/60333/1359--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स वीनस फिनटेक लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एम. के. बागड़ी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स क्वालिटी फास्टनर्स लिमिटेड के विषय में ।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 14 अक्टूबर 2003

सं. 560 (3)/एसईएस/101/55/103656/1387--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स क्वालिटी फास्टनर्स लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एम. के. बागड़ी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स तुलसी सेल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में ।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 14 अक्टूबर 2003

सं. 560 (3)/एसईएस/159/55/95315/1363--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स तुलसी सेल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एम. के. बागड़ी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स नोविक एसोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में ।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 14 अक्टूबर 2003

सं. 560 (3)/एसईएस/83/55/94098/1390--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स नोविक एसोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एम. के. बागड़ी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स कोह-टेक इन्फो प्राईवेट लिमिटेड के विषय में ।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 14 अक्टूबर 2003

सं. 560 (3)/एसईएस/86/55/99162/1393--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स कोह-टेक इन्फो प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एम. के. बागड़ी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स विन्डलेस इन्फार्मेशन सिस्टम्स लिमिटेड के विषय में ।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 15 अक्टूबर 2003

सं. 560 (3)/एसईएस/55/103649/1455--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स विन्डलेस इन्फार्मेशन सिस्टम्स लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एम. के. बागड़ी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स तनाई इलैक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में ।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 14 अक्टूबर 2003

सं. 560 (3)/एसईएस/135/55/79593/1396--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स तनाई इलैक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एम. के. बागड़ी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स डी. एल. एफ. इन्डस्ट्रियल रिसर्च इन्स्टीट्यूट के विषय में ।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 20 अक्टूबर 2003

सं. 560 (3)/एसईएस/55/15241/4561--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स डी. एल. एफ. इन्डस्ट्रियल रिसर्च इन्स्टीट्यूट का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एम. के. बागड़ी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स नेट्रोनिक्स इन्जीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में ।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 14 अक्टूबर 2003

सं. 560 (3)/एसईएस/68/55/103205/1399--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स नेट्रोनिक्स इन्जीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एम. के. बागड़ी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अमरदीप मैटल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में ।

जालन्धर, दिनांक 15 अक्टूबर 2003

सं. आरओसी/560(3)/4792/3206--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स अमरदीप मैटल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

दिवान चन्द
कम्पनी पंजीकार
पंजाब, हिमाचल प्रदेश एवं चण्डीगढ़

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स श्री गोपाल निट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में ।

जालन्धर, दिनांक 15 अक्टूबर 2003

सं. आर.ओ.सी./560(3)/4312/3210--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स श्री गोपाल निट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

दिवान चन्द
कम्पनी पंजीकार
पंजाब, हिमाचल प्रदेश एवं चण्डीगढ़

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ब्रजनारायण कन्सलटेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में ।

मुम्बई-400002, दिनांक 14 अक्टूबर 2003

सं. 361/55180/560--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स ब्रजनारायण कन्सलटेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया हो तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्याम सुन्दर
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स बीना पॉवर ओपरेशन एण्ड मेन्टेनेन्स कम्पनी लिमिटेड के विषय में ।

ग्वालियर-474009, दिनांक 16 अक्टूबर 2003

सं. आर.ओ.सी.-जी/एस.टी.ए./धारा 560(3)/2358--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत एतद्वारा सूचित किया जाता है कि इस सूचना के दिनांक से तीन मास की समाप्ति पर मैसर्स बीना पॉवर ओपरेशन एण्ड मेन्टेनेन्स कम्पनी लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कोई कारण न दर्शाया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा एवं कथित कम्पनी विघटित हो जाएगी।

नौबत सिंह
कम्पनी रजिस्ट्रार
मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स बर्दवान वाल्व प्राईवेट लिमिटेड के विषय में ।

मुम्बई-400002, दिनांक 14 अक्टूबर 2003

सं. 359/59860/560--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स बर्दवान वाल्व प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया हो तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्याम सुन्दर
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स बीना पॉवर वाशरी कम्पनी लिमिटेड के विषय में ।

ग्वालियर-474009, दिनांक 16 अक्टूबर 2003

सं. आर.ओ.सी.-जी/एस.टी.ए./धारा 560(3)/2361--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत एतद्वारा सूचित किया जाता है कि इस सूचना के दिनांक से तीन मास की समाप्ति पर मैसर्स बीना पॉवर वाशरी कम्पनी लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कोई कारण न दर्शाया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा एवं कथित कम्पनी विघटित हो जाएगी।

नौबत सिंह
कम्पनी रजिस्ट्रार
मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अशानी ट्रेडिंग एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में ।

मुम्बई-400002, दिनांक 14 अक्टूबर 2003

सं. 358/78833/560--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स अशानी ट्रेडिंग एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया हो तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्याम सुन्दर
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स पारकोन इलेक्ट्रिक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में ।

मुम्बई-400002, दिनांक 14 अक्टूबर 2003

सं. 357/65897/560--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स पारकोन इलेक्ट्रिक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया हो तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्याम सुन्दर
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स बॉलीऊड रेडिओ प्राईवेट लिमिटेड के विषय में ।

मुम्बई-400002, दिनांक 14 अक्टूबर 2003

सं. 365/129164/560--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स बॉलीऊड रेडिओ प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया हो तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्याम सुन्दर
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मेहुल यार्नस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में ।

मुम्बई-400002, दिनांक 14 अक्टूबर 2003

सं. 356/70841/560--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स मेहुल यार्नस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया हो तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्याम सुन्दर
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स प्राइम ब्रोडकास्टिंग सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में ।

मुम्बई-400002, दिनांक 14 अक्टूबर 2003

सं. 364/129163/560--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स प्राइम ब्रोडकास्टिंग सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया हो तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्याम सुन्दर
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ए. ए. होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में ।

मुम्बई-400002, दिनांक 14 अक्टूबर 2003

सं. 360/97765/560--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स ए. ए. होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया हो तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्याम सुन्दर
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स नोरक्रोस अधेसिव्स एण्ड शेबर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में ।

मुम्बई-400002, दिनांक 14 अक्टूबर 2003

सं. 366/108030/560--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स नोरक्रोस अधेसिव्स एण्ड शेबर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया हो तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्याम सुन्दर
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स कोसमॉक एजेन्सीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में ।

मुम्बई-400002, दिनांक 14 अक्टूबर 2003

सं. 363/88281/560--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स कोसमॉक एजेन्सीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया हो तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्याम सुन्दर
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स स्कोरपीओ फायनान्स एण्ड कन्सलटेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में ।

मुम्बई-400002, दिनांक 14 अक्टूबर 2003

सं. 367/87181/560--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स स्कोरपीओ फायनान्स एण्ड कन्सलटेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया हो तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्याम सुन्दर
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स साइबरलिक सल्यूशन प्राईवेट लिमिटेड के विषय में ।

मुम्बई-400002, दिनांक 14 अक्टूबर 2003

सं. 368/117501/560--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स साइबरलिक सल्यूशन प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया हो तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्याम सुन्दर
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स श्रीरंग कन्स्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में ।

मुम्बई-400002, दिनांक 14 अक्टूबर 2003

सं. 362/48011/560--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स श्रीरंग कन्स्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया हो तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्याम सुन्दर
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में ।

बेंगलूर-34, दिनांक 13 अक्टूबर 2003

सं. कं.सं./560/3/के.एम./एस.सं./2003-2004--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि अगर तीन महीने के अन्दर उचित कारण न बताया गया तो निम्नलिखित कम्पनियों का नाम रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उस दिन से कम्पनियां विघटित समझी जाएंगी :-

क्र. सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1.	15121	मैसर्स अल्फ कामर्शियल लिक्स प्राईवेट लिमिटेड
2.	15693	मैसर्स अपरा एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
3.	17160	मैसर्स स्वर्णलिपि ग्राफिक्स प्राईवेट लिमिटेड
4.	17839	मैसर्स एल. आर. वी. इन्वेस्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
5.	20159	मैसर्स जोन सुपर मेश प्राईवेट लिमिटेड
6.	20642	मैसर्स हेड फायनान्सियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
7.	21906	मैसर्स बिल्वा पब्लिशिंग एण्ड प्रिंटिंग प्राईवेट लिमिटेड
8.	21940	मैसर्स साई सिद्धार्थ गारमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड

टी. एस. डी. प्रसाद राव
कम्पनियों के सहायक रजिस्ट्रार
कर्नाटक

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में।

बैंगलूर-34, दिनांक 20 अक्टूबर 2003

सं. कं.सं./560/3/एस.सं./2003-2004--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि अगर तीन महीने के अन्दर उचित कारण न बताया गया तो निम्नलिखित कम्पनियों का नाम रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उस दिन से कम्पनियां विघटित समझी जाएंगी :--

क्र. सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1.	16887	मैसर्स इन्डो ओवरसीस मैरीन प्राईवेट लिमिटेड
2.	18223	मैसर्स एम्बेसी होम होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
3.	18252	मैसर्स ग्लोबल विशन सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड

टी. एस. डी. प्रसाद राव
कम्पनियों के सहायक रजिस्ट्रार
कर्नाटक

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में।

बैंगलूर-34, दिनांक 21 अक्टूबर 2003

सं. कं.सं./560/3/जे.टी.ए./पी.एस./एस.सं./2003-2004--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि अगर तीन महीने के अन्दर उचित कारण न बताया गया तो निम्नलिखित कम्पनियों का नाम रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उस दिन से कम्पनियां विघटित समझी जाएंगी :--

क्र. सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1.	27231	मैसर्स रीतु इन्वेस्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
2.	24287	मैसर्स स्टेल्लार सल्यूशन्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
3.	26934	मैसर्स एन. एम. ग्लासफाइबर रोटर प्राईवेट लिमिटेड
4.	24709	मैसर्स अरावल्ली चेम प्लास्ट प्राईवेट लिमिटेड
5.	24696	मैसर्स सहयाद्री मोल्ड्स प्राईवेट लिमिटेड
6.	24695	मैसर्स सप्तगिरि इन्वेस्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड

टी. एस. डी. प्रसाद राव
कम्पनियों के सहायक रजिस्ट्रार
कर्नाटक

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ईजी प्लानेट टेक्नोलोजीस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

बैंगलूर-34, दिनांक 21 अक्टूबर 2003

सं. कं.सं. 27299/जे.टी.ए./पी.एस./2003-2004--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स ईजी प्लानेट टेक्नोलोजीस प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

टी. एस. डी. प्रसाद राव
कम्पनियों के सहायक रजिस्ट्रार
कर्नाटक

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ग्लोबल साफ्टलाइन सिस्टम्स लिमिटेड के विषय में।

बैंगलूर-34, दिनांक 17 अक्टूबर 2003

सं. कं.सं./27234/560/3/जे.टी.ए./पी.एस./2003-2004--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि अगर तीन महीने के अन्दर उचित कारण न बताया गया तो मैसर्स ग्लोबल साफ्टलाइन सिस्टम्स लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उस दिन से कम्पनी विघटित समझी जाएगी।

टी. एस. डी. प्रसाद राव
कम्पनियों के सहायक रजिस्ट्रार
कर्नाटक

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स गीतचंद इन्वेस्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

चेन्नई-600006, दिनांक 14 अक्टूबर 2003

सं. 29116/पी.सी.-III/560(3)/2003--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स गीतचंद इन्वेस्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. मीनाक्षी
सहायक कम्पनी पंजीयक
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ओमकार पब्लिशर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

पणजी, दिनांक 13 अक्टूबर 2003

सं. 24-01873/G/1787--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स ओमकार पब्लिशर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

जी. के. पुरवार
कम्पनी रजिस्ट्रार
गोवा, दमण एवं दीव

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स क्रिएटिव प्लास्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

पणजी, दिनांक 13 अक्टूबर 2003

सं. 56-02474/G/11796--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स क्रिएटिव प्लास्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

जी. के. पुरवार
कम्पनी रजिस्ट्रार
गोवा, दमण एवं दीव

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मल्टीपल सेफ लाईफ प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

पणजी, दिनांक 13 अक्टूबर 2003

सं. 24-03104/G/1790--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स मल्टीपल सेफ लाईफ प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

जी. के. पुरवार
कम्पनी रजिस्ट्रार
गोवा, दमण एवं दीव

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स गोवा ऐक्सट्रयूडर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

पणजी, दिनांक 13 अक्टूबर 2003

सं. 24-00545/G/1800--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स गोवा ऐक्सट्रयूडर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

जी. के. पुरवार
कम्पनी रजिस्ट्रार
गोवा, दमण एवं दीव

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

New Delhi-110069, the 4th September 2003

No. A-19014/2/2002-Admn. I—Having accepted his request for premature repatriation to his parent cadre by the Office of the Establishment Officer, Department of Personnel & Training, vide O. M. No. 21/4/2002-EO(MM. I) dated 25th August 2003, Shri Santosh Kumar, IDAS (91), is relieved of his duties as Deputy Secretary in the Commission's Office w.e.f. the afternoon of 4th September 2003. He is directed to report to his parent cadre as Joint CDA (PD) in the Zonal Office (PD), Delhi Cantt., where he has been posted vide Office of the C. G. D. A. letter No. AN-I/344/5/PF dated 29th August 2003.

S. ANANDAN
Under Secretary (Admn.)

The 22nd September 2003

No. A-19014/11/2003-Admn. I—Consequent upon his transfer from Ministry of Commerce & Industry, Department of Commerce to the Union Public Service Commission vide Office of the Establishment Officer, Department of Personnel & Training OM No. 31/10/2003-EO(MM. I) dated 1st September, 2003, Shri Mangal Singh, an Officer of CSS, has been appointed as Under Secretary, UPSC w.e.f. the forenoon of 3rd September, 2003 until further orders.

S. ANANDAN
Under Secretary (Admn.)

The 7th October 2003

No. A-32013/1/2001-Admn. II—In continuation of this office notification of even number dated 30.6.2003, the Chairman, Union Public Service Commission hereby appoints Dr. A. K. Nangia, Senior Programmer in the Commission's office to officiate as Manager (SD) & CP (General Central Service Group 'A', Gazetted) (Non-Ministerial) in the scale of pay of Rs. 12000-375-16500 in the office of Union Public Service Commission on ad-hoc promotion basis for a period of 3 months w.e.f. 25.9.2003 to 24.12.2003 or until further orders, whichever is earlier.

2. The appointment of above named officer as Manager (SD) & CP is purely on ad-hoc basis and shall not confer upon him any title for regular appointment or seniority in the grade of Manager (SD) & CP.

S. ANANDAN
Under Secretary (Admn.)
for Chairman

CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

New Delhi-110 003, the 30th September 2003

No. DPAD 52003/04055/3/35/2003-AD.V—The President is pleased to appoint Sh. Sandeep Khirwar, IPS (HY : 1995) as Supdt. of Police in Central Bureau of Investigation with effect from the forenoon of August 28, 2003 for a period of 4 years up to 27.8.2007 or until further orders, whichever is earlier.

In view of the inetrim order dated 30.7.2002 of the Hon'ble High Court of Delhi in CWP No. 3755/2001 Shri S. K. Khare Vs. Union of India, the appointment of Shri Sandeep Khirwar, IPS as SP/CBI will be subject to further orders of the CAT, Principal Bench, Delhi in OA No. 773/2001 filed by Shri Navin Goyal & others Vs Union of India.

S. D. BAIJAL
Administrative Officer (Estt.)

The 1st October 2003

No. DPAD 5/2003/4088/3/35/92-AD. V—Shri T. M. Chandy relinquished charge of Sr. Public Prosecutor, CBI with effect from 30.9.2003 (A. N.) on attaining the age of superannuation.

S. D. BAIJAL
Administrative Officer (Estt.)

The 13th October 2003

No. DPAD 52002/4368/3/44/2002-AD.V—Services of Shri Sarath Kumar Vasudev Rao presently working as Dy. Supdt. of Police in the CBI on deputation basis are placed back at the disposal of Maharashtra State Mumbai City Police on premature repatriation with immediate effect from 7.10.2003 (AN).

S. D. BAIJAL
Admn. Officer (Estt.)

The 15th October 2003

No. DPAD 52003/4430/3/47/91-Ad. V—Shri L. S. Gondke relinquished charge of the post of Office Superintendent, Central Bureau of Investigation on attaining the age of superannuation with effect from the afternoon of September 30, 2003.

S. D. BAIJAL
Administrative Officer (Estt.)

No. DPAD 52003/4431/3/34/2001-AD. V—Services of Shri Rupin Sharma, IPS (NG/1992), Assistant Director, Central Bureau of Investigation, New Delhi have been placed back at the disposal of Government of Nagaland with

effect from the afternoon of September 15, 2003 on repatriation.

S. D. BAIJAL
Administrative Officer (Estt.)

New Delhi-110 003, the 9th October 2003

No. DPAD 12003/3631/A-34012/9/2000—Shri H. L. Saluja, Personal Assistant on his promotion, has taken over the charge of the post of Private Secretary, Central Bureau of Investigation with effect from the forenoon of 16.09.2003.

PANKAJ SAXENA
Superintendent of Police (Pers)

MINISTRY OF FINANCE
(DEPTT. OF ECONOMIC AFFAIRS)
CURRENCY NOTE PRESS

Nashik Road, the 18th October 2003

No. 06-S/(ESC1-15)—Shri A. S. Belgaonkar, Jr. Accounts Officer, Currency Note Press, Nashik Road is hereby promoted as Accounts Officer (Group 'B', Gazetted) on adhoc basis in the pay scale of Rs. 7450-225-11500/- with effect from 17.09.2003 to 16.03.2004 or till the post of Assistant Director (Cost) is filled whichever is earlier.

The above adhoc promotion will not bestow on the promotee any claim for regular appointment and the adhoc service rendered by him would not count for the purpose of seniority in that grade for eligibility for promotion etc.

A. N. INGLE
General Manager

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A & E), KARNATAKA

Bangalore, the 30th September 2003

No. ES I/A 8/2003-2004/185—The Accountant General (A & E) is pleased to promote Sri A. C. Nataraj, Accounts Officer, E. C. No. 19730105 as Senior Accounts Officer carrying the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500 with effect from 30.09.2003 FN or from the date of assuming charge whichever is later until further orders.

2. Option may be exercised by him for fixation of pay in the higher grade under Rule FR 22 (I) (a) (1) within one month from the date of this Order.

Sd/- ILLEGIBLE
Sr. Deputy Accountant General (Admn.)

No. ES I/A 8/AO/2003-2004/186—The Accountant General (A & E) is pleased to promote Sri P. B. Ganesh,

Assistant Accounts Officer, E. C. No. 19740524 as Accounts Officer, carrying the scale of pay of Rs. 7,500-250-12,000 with effect from 30.09.2003 FN or from the date of assuming charge whichever is later in a purely temporary capacity until further orders.

2. Option has to be exercised by him for fixation of pay in the higher scale in terms of Rule FR 22 (I) (a) (i) within one month from the date of promotion.

Sd/- ILLEGIBLE
Sr. Deputy Accountant General (Admn.)

MINISTRY OF SMALL SCALE INDUSTRIES
OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER
(SMALL SCALE INDUSTRIES)

New Delhi, the 15th October 2003

No. A-19018/1040/89-Admn (G)—Smt. Amritha Moorthy, Assistant Director (Grade I) (Electrical), Small Industries Service Institute, Bangalore retired from Government Service on Voluntary Retirement with effect from 01.10.2003 (Forenoon).

S. V. N. PILLAI
Deputy Director (Admn.)

No. A-19018/1681/2003-Admn (G)—The Development Commissioner (Small Scale Industries) is pleased to appoint Shri K. P. Prasanna Rao, Small Industry Promotion Officer (Mechanical), Small Industries Service Institute, Hyderabad as Assistant Director (Grade II) (Mechanical) on officiating basis under Small Industry Development Organisation in the pay scale of Rs. 6500-200-10500 in Small Industries Service Institute, Guwahati with effect from the forenoon of 29.09.2003 until further orders.

S. V. N. PILLAI
Deputy Director (Admn.)

KHAN MANTRALAYA
(GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA)

Kolkata-700 016, the 17th October 2003

No. 5235/B/A-19011 (1-SG)/03/19A—The President is pleased to appoint Miss Susmita Gupta to the post of Geologist (Jr.) in Geological Survey of India in the minimum of the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500/- in a temporary capacity with effect from the forenoon of 14.07.2003 until further orders.

S. K. SINHA
Senior Administrative Officer
for Director General

INDIAN BUREAU OF MINES

Nagpur, the 10th October 2003

No. A-31013/27/2003-Estt. A—On the recommendation of the Departmental Promotion Committee, the following officer of the Indian Bureau of Mines is confirmed as Assistant Stores Officer from the date shown against his name :—

Shri K. N. K. Vishwanadham, Asstt. Stores Officer, 8.1.2003.

S. CHANDRAMOULI
Head of Office

Nagpur, the 14th October 2003

No. A-19011/542/97-Estt. A.—Shri G. W. Bhowate, an officer of ISS Grade IV (Junior Time Scale), Asstt. Mineral Economist(S) has been promoted on adhoc basis to the Grade III (Sr. Time Scale) ISS as Deputy Mineral Economist(S) in Indian Bureau of Mines in the pay scale of Rs. 10000-325-15200/- w.e.f. 29.9.2003 (FN) as per order No. 12015/8/2003-ISS dated 26.9.2003 issued by the Ministry of Statistics and Programme Implementation, New Delhi.

B. SOOD
Asstt. Admn. Officer

SURVEY OF INDIA
SURVEYOR GENERAL'S OFFICE

Dehradun-248001, the 13th October 2003

No. C-273/718-A—The undermentioned Office Superintendent(s) are hereby promoted as Establishment & Accounts Officer (GCS Group 'B' Post) in Survey of India in the pay scale of Rs. 7,450-225-11,500 on regular basis with effect from the date as shown against their names :—

Sl. No.	Name	Date of Promotion
1.	Shri S. Maqbool Ahmed	29.8.2003
2.	Shri B. Venkateshwara Rao	25.8.2003
3.	Shri R. C. Sakarwal	01.8.2003
4.	Shri Inderjit Singh	26.09.2003

Dr. P. NAG
Surveyor General of India

No. C-287/594—The undermentioned Senior Reprographers are hereby promoted as Assistant Manager

(Map Reproduction) (GCS Group 'B' Post Gazetted) in Survey of India in the Pay Scale of Rs. 6,500-200-10,500 on regular basis w.e.f. the date(s) as shown against their names :—

Sl. No.	Name	Date of Promotion
1.	Shri N. S. Kandari (ST)	11.9.2003
2.	Shri Aquil Ahmad	11.9.2003
3.	Shri R. P. Sharma	11.9.2003
4.	Shri Janak Ram (SC)	11.09.2003
5.	Shri T. K. Mukherjee	01.10.2003

Dr. P. NAG
Surveyor General of India

BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE
(PERSONNEL DIVISION)

Mumbai-400085, the 7th October 2003

No. GF/38/Estt. I/2734—The President is pleased to appoint the undermentioned Scientific Officers/Engineers belonging to Group "A" of the Department of Atomic Energy in a substantive capacity with effect from the date mentioned against each :—

Sl. No.	Name	Grade/Post of initial apptt.	Recommended date of confirmation
1	2	3	4
1.	Shri Santosh Kumar	SO/C	01.10.2001
2.	Dr. (Smt.) Suvarna Sivaprakash Redkar	SO/F	01.10.2002
3.	Dr. Vanashree Prabhakar Saple	SO/D	01.04.2003
4.	Dr. (Smt.) Vandana Tripathi	SO/D	01.04.2003
5.	Dr. (Smt.) Geeta Sandeep Motiwale	SO/D	01.04.2003
6.	Dr. Atal Mohan Nalawade	SO/D	01.04.2003
7.	Dr. (Smt.) Sipra Choudhury	SO/D	01.04.2003
8.	Shri Amit Sharma	SO/C	01.10.2003
9.	Dr. Vivek George	SO/D	01.10.2003
10.	Shri Jahur Alam Mondal	SO/C	01.10.2003
11.	Shri Nitin Mehrotra	SO/C	01.10.2003
12.	Shri Shrinibas Nayak	SO/C	01.10.2003
13.	Shri Neeraj Joshi	SO/C	01.10.2003
14.	Shri Jitendra Kumar	SO/C	01.10.2003
15.	Dr. (Smt.) Jaya Mahesh Rajurkar	SO/C	01.10.2003

1	2	3	4
16.	Shri Himanshu Kumar Poswal	SO/C	01.10.2003
17.	Shri Vaidehi Sharan Tripathi	SO/C	01.10.2003
18.	Shri Manish Goswami	SO/C	01.10.2003
19.	Shri Murtaza Tahir Saify	SO/C	01.10.2003
20.	Shri Prashant Kumar	SO/C	01.10.2003
21.	Shri Sumit Vishnu Prasad	SO/C	01.10.2003
22.	Shri Subrata Chatterjee	SO/C	01.10.2003
23.	Shri Girdhar Sharma	SO/C	01.10.2003
24.	Shri Rohit Kumar M. Chandak	SO/C	01.10.2003
25.	Shri Amit Kumar	SO/C	01.10.2003
26.	Shri Atul Pandey	SO/C	01.10.2003
27.	Shri Vinay Bhardwaj	SO/C	01.10.2003
28.	Shri Dattatraya Parle	SO/C	01.10.2003
29.	Shri Abhishek Mittal	SO/C	01.10.2003
30.	Shri Gaurav Bhutani	SO/C	01.10.2003
31.	Shri T. Jesan	SO/C	01.10.2003
32.	Shri Barendra Kumar Rana	SO/C	01.10.2003
33.	Shri Prem Sasidharan	SO/C	01.10.2003

ANTHONY DE SA
Controller

No. GF/38/Estt.IA/2737—The President is pleased to appoint the undermentioned Scientific Officer/Engineers belonging to Group "A" of the Department of Atomic Energy in a substantive capacity with effect from the dates mentioned against each.

Sl. No.	Name	Grade/Post of initial appt.	Date of confirmation
1	2	3	4
01.	Shri Sujoy Chatterjee	SO/C	01.10.2002
02.	Shri S. Thirumalkon Manikandan	SO/C	01.10.2002
03.	Dr. (Smt.) Manmeet Kaur	SO/D	01.04.2003
04.	Dr. Pratap Baburao Wagh	SO/D	01.04.2003
05.	Shri Sanjay Vishwasrao Ingale	SO/C	01.04.2003

1	2	3	4
06.	Shri Bhaskar Sanyal	SO/C	01.04.2003
07.	Kum. Mahua Basu	SO/C	01.10.2003
08.	Shri Eswaran Alagu Raja	SO/C	01.10.2003
09.	Shri Subhransu Sahoo	SO/C	01.10.2003
10.	Shri Amol Sadanand Karandikar	SO/C	01.10.2003
11.	Shri Gaurav Kumar Pandey	SO/C	01.10.2003
12.	Shri Jotiram Vilasrao Mane	SO/C	01.10.2003
13.	Smt. Ranjna Kalra	SO/C	01.10.2003
14.	Shri Ramesh Chandra Sharma	SO/C	01.10.2003
15.	Shri Pilla Venkata Sunil Nag	SO/C	01.10.2003
16.	Shri Mylavarapu Bhaskara Sai Prasad	SO/C	01.10.2003
17.	Shri Jinesh Thomas	SO/C	01.10.2003
18.	Shri. Moly Subhash Vishnu	SO/C	01.10.2003
19.	Shri Vijaya Gopal Perumal	SO/C	01.10.2003
20.	Shri Champa Lal Prajapat	SO/C	01.10.2003
21.	Kum. Rekhu, Kasera	SO/C	01.10.2003
22.	Kum. Ganapathy Kothai	SO/C	01.10.2003
23.	Shri Ved Prakash Sinha	SO/C	01.10.2003
24.	Shri Thirumam Satyendra	SO/C	01.10.2003
25.	Shri Sachin Kumar	SO/C	01.10.2003
26.	Shri Siddhartha Pramanick	SO/C	01.10.2003
27.	Shri Santosh Shridhar Yadwad	SO/C	01.10.2003
28.	Shri Bathe Bhagwan Narayan	SO/C	01.10.2003
29.	Shri Amar Deep Kumar	SO/C	01.10.2003
30.	Kum. Renuka Deshpande	SO/C	01.10.2003
31.	Shri Shesha Shila Bharadwaj Renukuntla	SO/C	01.10.2003
32.	Shri Venkata Pinaka Pani Kondapi	SO/C	01.10.2003
33.	Shri Amit Sachdeva	SO/C	01.10.2003
34.	Kum. Neetika Rawat	SO/C	01.10.2003
35.	Shri Dharmendra Kumar Maurya	SO/C	01.10.2003
36.	Shri Amit Kumar Misra	SO/C	01.10.2003
37.	Shri Praveen Kumar Suggiseti	SO/C	01.10.2003
38.	Shri Soumen Sarkar	SO/C	01.10.2003

ANTHONY DE SA
Controller, BARC

No. GF/38/Estt.II/2738—The President is pleased to appoint the undermentioned Scientific Officer/Engineers belonging to Group "A" of the Department of Atomic Energy in a substantive capacity with effect from the dates mentioned against each :—

Sl. No.	Name	Grade/Post of initial appt.	Date of confirmation
1	2	3	4
01.	Shri Biplab Thakur	SO/C	01.10.1998
02.	Shri Lokpal Singh Patel	SO/C	01.04.2002
03.	Shri Raghendra Kumar	SO/C	01.10.2002
04.	Shri Mukesh Rawaldas Kukreja	SO/C	01.10.2002
05.	Shri Debjit Rakshit	SO/C	01.10.2002
06.	Kum. Madhuri Sivappa Kittad	SO/C	01.10.2002
07.	Shri Ajaykumar Singh Tomar	SO/C	01.04.2003
08.	Shri Atul Kumar Malik	SO/C	01.10.2003
09.	Shri Manoj Santosh Caudhari	SO/C	01.10.2003
10.	Shri Sharvan Kumar	SO/C	01.10.2003
11.	Shri Madala Kalyan Chakravarthy	SO/C	01.10.2003
12.	Shri Dipak Dwarkadas Patel	SO/C	01.10.2003
13.	Kum. Nalini Singh	SO/C	01.10.2003
14.	Shri Pritesh Johari	SO/C	01.10.2003
15.	Shri Ashish Thakur	SO/C	01.10.2003
16.	Shri Divya Kumar Dixit	SO/C	01.10.2003
17.	Shri Swamy Sharan	SO/C	01.10.2003
18.	Shri Santosh Kumar Mishra	SO/C	01.10.2003
19.	Shri Ritesh Bansal	SO/C	01.10.2003
20.	Shri Mithilesh Kumar	SO/C	01.10.2003
21.	Shri Nishant Kumar	SO/C	01.10.2003
22.	Shri Chandra Bhushan Patel	SO/C	01.10.2003
23.	Shri Dumpa Raghavendra	SO/C	01.10.2003
24.	Shri Dharendra Kumar Jha	SO/C	01.10.2003
25.	Shri Pavan Kumar Emani	SO/C	01.10.2003
26.	Shri Durga Rao Karanki	SO/C	01.10.2003

1	2	3	4
27.	Shri Chirag Arvindbhai Patel	SO/C	01.10.2003
28.	Shri Ramesh Balaram Sabannavar	SO/C	01.10.2003
29.	Shri Sachin Agarwal	SO/C	01.10.2003
30.	Shri Mukund Kushwah	SO/C	01.10.2003
31.	Shri Mahesh Kumar Sahu	SO/C	01.10.2003
32.	Shri Kamal Sharma	SO/C	01.10.2003
33.	Shri Pushpalaj Singh Kaurav	SO/C	01.10.2003
34.	Shri Aniruddha Dharashankar	SO/C	01.10.2003
35.	Shri Kodappully Madhu	SO/C	01.10.2003
36.	Kum. Mousumi Sengupta	SO/C	01.10.2003
37.	Dr. Anindya Chakravarty	SO/D	01.10.2003
38.	Shri Maroor Prabhakaran Nair Shreekumar	SO/C	01.10.2003
39.	Shri Jinendra Kacharulal Gugaliya	SO/C	01.10.2003
40.	Shri Kanchan Garain	SO/C	01.10.2003
41.	Shri Piyush Prasad	SO/C	01.10.2003
42.	Shri Madhava Balakrishna Mallia	SO/C	01.10.2003

ANTHONY DE SA
Controller

Mumbai-400 085, the 10th October 2003

No. PD/7(1)/2002-R-III/1338—Controller, BARC appoints Shri P M Mathew, Assistant Accountant, BARC to officiate as Assistant Accounts Officer in the scale of pay of Rs. 7450-225-11500, in this Research Centre w.e.f. the afternoon of 25.09.2003 on regular basis until further orders.

K.C. DIVAKARAN
Dy. Establishment Officer

No. PD/7(1)/2002-R-III/1339—Controller, BARC appoints Shri Badipati Satyanarayana, Assistant Accountant, Heavy Water Project, Manuguru to officiate as Assistant Accounts Officer in the scale of pay of Rs. 7450-225-11500, in this Research Centre w.e.f. the forenoon of 06.10.2003 on regular basis until further orders.

K.C. DIVAKARAN
Dy. Establishment Officer

The 14th October 2003

No. PD/4(4)/2001-R-III/1348—Controller, BARC appoints Shri Swaminathan N., Accounts Officer, PRP, Kalpakkam to officiate as Senior Accounts Officer in the scale of pay of Rs. 8000-275-13500 at PRP, Kalpakkam w.e.f. the forenoon of 01.11.2002 on regular basis until further orders.

K.C. DIVAKARAN
Dy. Establishment Officer

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

Mumbai-400 001, the 09th October 2003

No. 6(2321)/2001/Adm/1745—The President is pleased to appoint Dr. Subhash Chandra, Scientific Officer/G (scale of pay of Rs. 16,400-450-20,000), Department of Atomic Energy, Mumbai to officiate as Scientific Officer/H in the scale of pay of Rs. 18,400-500-22,400 in the same Department in a temporary capacity with effect from the forenoon of August 1, 2003, until further orders.

M VENUGOPALAN
Staff Relations Officer

No. 6(2324)/2001/Adm/1746—The President is pleased to appoint Shri A.B. Awati, Scientific Officer/F (scale of pay of Rs. 14,300-400-18,300), Department of Atomic Energy, Mumbai to officiate as Scientific Officer/G in the scale of pay of Rs. 16,400-450-20,000 in the same Department in a temporary capacity with effect from the forenoon of August 1, 2003, until further orders.

M VENUGOPALAN
Staff Relations Officer

DIRECTORATE OF CONSTRUCTION, SERVICES AND ESTATE MANAGEMENT

Mumbai-400 094, the 15th October 2003

No. DCSE/A/9(230)/2003-Rectt./717—Director, DCSE, DAE hereby appoints Shri M.S. Gandle, Assistant Personnel Officer as Administrative Officer-II in this Directorate in the scale of pay of Rs. 7500-250-12000 from the forenoon of 09.07.2003 until further orders.

V.V. EALIAS
Administrative Officer-III

ATOMIC MINERALS DIRECTORATE FOR EXPLORATION AND RESEARCH

Hyderabad-500 016, the 17th October 2003

No. AMD-51(59)/2002-Pen/2493—On attaining the age of superannuation, the following Officer has relinquished the charge of his post in the Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research of Department of Atomic

Energy on the date mentioned :—

S.No.	Name & Designation	Date of Relinquishment	Event
1.	Shri S.K. Saxena Scientific Officer-G	30.09.2003	Superannuation

K. DAMODARAN
Chief Administrative and Accounts Officer

MINISTRY OF FINANCE & COMPANY AFFAIRS (DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS) OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Mohan Meakin International Limited

New Delhi-110 003, the 18th September 2003

No. U/s. 560(3)/SES/22/55/10771/497—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Mohan Meakin International Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

M.K. BAGRI
Asstt. Registrar of Companies
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sky Line Securities Private Limited

New Delhi-110 003, the 01st October 2003

No. U/s. 560(3)/SES/125/55/96452/926—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Sky Line Securities Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

M.K. BAGRI
Asstt. Registrar of Companies
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Aggarwal Diagnostic Private Limited

New Delhi-110 003, the 06th October 2003

No. U/s. 560(3)/SES/164/05-31855/4512—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Aggarwal

Diagnostic Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

M.K. BAGRI
Asstt. Registrar of Companies
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Elymer Finance Private Limited

New Delhi-110 003, the 06th October 2003

No. U/s. 560(3)/SES/11/55/80273/4515—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Elymer Finance Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

M.K. BAGRI
Asstt. Registrar of Companies
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Pico Contracts International Private Limited

New Delhi-110 003, the 06th October 2003

No. U/s. 560(3)/SES/131/55-80158/4523—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Pico Contracts International Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

M.K. BAGRI
Asstt. Registrar of Companies
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Comec Industrial Resources Limited

New Delhi-110 003, the 07th October 2003

No. U/s. 560(3)/SES/224/55-20036/1053—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Comec Industrial Resources Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

M.K. BAGRI
Asstt. Registrar of Companies
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sanmit Marketing Limited

New Delhi-110 003, the 07th October 2003

No. U/s. 560(3)/SES/230/55-20459/1059—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Sanmit Marketing Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

M.K. BAGRI
Asstt. Registrar of Companies
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Aristo Commercial Limited

New Delhi-110 003, the 07th October 2003

No. U/s. 560(3)/SES/229/55-20058/1062—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Aristo Commercial Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

M.K. BAGRI
Asstt. Registrar of Companies
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Comet Trade & Industries Limited

New Delhi-110 003, the 07th October 2003

No. U/s. 560(3)/SES/228/55-20495/1065—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Comet Trade & Industries Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

M.K. BAGRI
Asstt. Registrar of Companies
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Gem Trade & Agencies Limited

New Delhi-110 003, the 07th October 2003

No. U/s. 560(3)/SES/227/55-20035/1068—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Gem

Trade & Agencies Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

M.K. BAGRI
Asstt. Registrar of Companies
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Crown Agro Industries Limited

New Delhi-110 003, the 07th October 2003

No. U/s. 560(3)/SES/226/55/20458/1071—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Crown Agro Industries Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

M.K. BAGRI
Asstt. Registrar of Companies
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Enfield Mofa Limited

New Delhi-110 003, the 13th October 2003

No. U/s. 560(3)/SES/55/91814/1245—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Enfield Mofa Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

M.K. BAGRI
Asstt. Registrar of Companies
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Pragatisheel Finlease & Investment Limited

New Delhi-110 003, the 14th October 2003

No. U/s. 560(3)/SES/59/55-68114/1287—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Pragatisheel Finlease & Investment Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

M.K. BAGRI
Asstt. Registrar of Companies
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. JSG Consultants Private Limited

New Delhi-110 003, the 14th October 2003

No. U/s. 560(3)/SES/64/55-101917/1290—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. JSG Consultants Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

M.K. BAGRI
Asstt. Registrar of Companies
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Northern Hydro Power Generation Co. Limited

New Delhi-110 003, the 14th October 2003

No. U/s. 560(3)/SES/61/55-55520/1293—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Northern Hydro Power Generation Co. Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

M.K. BAGRI
Asstt. Registrar of Companies
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Aryan Woollen Mills Limited

New Delhi-110 003, the 14th October 2003

No. U/s. 560(3)/SES/65/05-32924/1308—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Aryan Woollen Mills Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

M.K. BAGRI
Asstt. Registrar of Companies
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Northern Hydro Projects Consultants Limited

New Delhi-110 003, the 14th October 2003

No. U/s. 560(3)/SES/58/55-56295/1311—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Northern

Hydro Projects Consultants Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

M.K. BAGRI
Asstt. Registrar of Companies
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Popal Marketing Private Limited

New Delhi-110 003, the 14th October 2003

No. U/s. 560(3)/SES/71/55-107155/1314.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Popal Marketing Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

M.K. BAGRI
Asstt. Registrar of Companies
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Nigam Consultants Private Limited

New Delhi-110 003, the 14th October 2003

No. U/s. 560(3)/SES/222/05/34556/1317.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Nigam Consultants Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

M.K. BAGRI
Asstt. Registrar of Companies
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Krishna Cresec Private Limited

New Delhi-110 003, the 14th October 2003

No. U/s. 560(3)/SES/165/55-76487/1356.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Krishna Cresec Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

M.K. BAGRI
Asstt. Registrar of Companies
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Venus Fintech Limited

New Delhi-110 003, the 14th October 2003

No. U/s. 560(3)/SES/146/55-60333/1359.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Venus Fintech Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

M.K. BAGRI
Asstt. Registrar of Companies
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Tulsi Sales Private Limited

New Delhi-110 003, the 14th October 2003

No. U/s. 560(3)/SES/159/55-95315/1363.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Tulsi Sales Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

M.K. BAGRI
Asstt. Registrar of Companies
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. I. C. Capital Markets Limited

New Delhi-110 003, the 14th October 2003

No. U/s. 560(3)/SES/134/55-41720/1369.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. I. C. Capital Markets Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

M.K. BAGRI
Asstt. Registrar of Companies
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Quality Fastners Limited

New Delhi-110 003, the 14th October 2003

No. U/s. 560(3)/SES/101/55/103656/1387.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Quality

Fastners Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

M.K. BAGRI
Asstt. Registrar of Companies
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Novick Associates Private Limited

New Delhi-110 003, the 14th October 2003

No. U/s. 560(3)/SES/83/53-94098/1390—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Novick Associates Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

M.K. BAGRI
Asstt. Registrar of Companies
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Koh-Tech Info Private Limited

New Delhi-110 003, the 14th October 2003

No. U/s. 560(3)/SES/86/55/99162/1393—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Koh-Tech Info Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

M.K. BAGRI
Asstt. Registrar of Companies
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Tanai Electronics Private Limited

New Delhi-110 003, the 14th October 2003

No. U/s. 560(3)/SES/135/55-79593/1396—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Tanai Electronics Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

M.K. BAGRI
Asstt. Registrar of Companies
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Netronic Engineers Private Limited

New Delhi-110 003, the 14th October 2003

No. U/s. 560(3)/SES/68/55-103205/1399—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Netronic Engineers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

M.K. BAGRI
Asstt. Registrar of Companies
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Windlass Information Systems Limited

New Delhi-110 003, the 15th October 2003

No. U/s. 560(3)/55/103649/1455—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Windlass Information Systems Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

M.K. BAGRI
Asstt. Registrar of Companies
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. DLF Industrial Research Institute

New Delhi-110 003, the 20th October 2003

No. U/s. 560(3)/55/15241/4561—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. DLF Industrial Research Institute unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

M.K. BAGRI
Asstt. Registrar of Companies
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Amardeep Metals Private Limited.

Jalandhar, the 15th October 2003

No. PC/560(3)/4792/3206—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Amardeep Metals

Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

DIWAN CHAND
Registrar of Companies
Punjab, H.P. & Chandigarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shree Gopal Knits Private Limited.

Jalandhar, the 15th October 2003

No. PC/560(3)/4312/3210—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Shree Gopal Knits Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

DIWAN CHAND
Registrar of Companies
Punjab, H.P. & Chandigarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Bina Power Operations and Maintenance Company Limited.

Gwalior-474009, the 16th October 2003

No. ROC-G/11998/Sec. 560(3)/2002/2358—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Bina Power Operations and Maintenance Company Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

NAUBAT SINGH
Registrar of Companies
M.P. & Chhattisgarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Bina Power Washery Company Limited.

Gwalior-474009, the 16th October 2003

No. ROC-G/11997/Sec. 560(3)/2002/2361—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Bina Power Washery Company Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

NAUBAT SINGH
Registrar of Companies
M.P. & Chhattisgarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Brajnarayan Consultants Private Limited.

Mumbai-400002, the 14th October 2003

No. 361/53180/560/3487—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Brajnarayan Consultants Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Burdwan Valve Private Limited.

Mumbai-400002, the 14th October 2003

No. 359/59860/560/3489—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Burdwan Valve Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Aishani Trading & Investment Co. Private Limited.

Mumbai-400002, the 14th October 2003

No. 358/78833/560/3491—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Aishani Trading & Investment Co. Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Parcon Electricals Private Limited.

Mumbai-400002, the 14th October 2003

No. 357/65897/560/3493—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months

from the date hereof, the name of M/s. Parcon Electricals Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Mehul Yarns Private Limited.

Mumbai-400002, the 14th October 2003

No. 356/70841/560/3495—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Mehul Yarns Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. A. A. Holdings Private Limited.

Mumbai-400002, the 14th October 2003

No. 360/97765/560/3497—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. A. A. Holdings Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Bollywood Radio Private Limited.

Mumbai-400002, the 14th October 2003

No. 365/129164/560/3499—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Bollywood Radio Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Prime Broadcasting Services Private Limited.

Mumbai-400002, the 14th October 2003

No. 364/129163/560/3501—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Prime Broadcasting Services Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Norcros Adhesives & Showers India Private
Limited.

Mumbai-400002, the 14th October 2003

No. 366/108030/560/3503—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Norcros Adhesives & Showers India Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Cosmac Agencies Private Limited.

Mumbai-400002, the 14th October 2003

No. 363/88281/560/3505—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Cosmac Agencies Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Scorpio Finance and Consultants Private Limited.

Mumbai-400002, the 14th October 2003

No. 367/87181/560/3507—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the

Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Scorpio Finance and Consultants Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Cyberlink Solutions Private Limited.

Mumbai-400002, the 14th October 2003

No. 368/117501/560/3509—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Cyberlink Solutions Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shrirang Constructions Private Limited.

Mumbai-400002, the 17th October 2003

No. 362/48011/560/3628—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Shrirang Constructions Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the
following Companies

Bangalore-560034, the 13th October 2003

No. JTA/KM/560(3)/2003-04—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of one month

from the date hereof, the name of the following Companies, unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Companies will be dissolved :—

S. No.	Company No.	Name of the company
1.	15121	M/s. Alpha Commercial Links Private Limited.
2.	15693	M/s. Apari Exports Private Limited.
3.	17160	M/s. Swarnalipi Graphics Private Limited.
4.	17839	M/s. L. R. V. Investments Private Limited.
5.	20159	M/s. Zone Super Mesh Private Limited.
6.	20642	M/s. Herd Financial Services Private Limited.
7.	21906	M/s. Bilva Publishing & Printing Private Limited.
8.	21940	M/s. Sai Siddarth Garments Private Limited.

T.S.D. PRASADA RAO
Asstt. Registrar of Companies,
Karnataka

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the
following Companies.

Bangalore-560034, the 20th October 2003

No. STA/BS/560(3)/2003-04—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of one month from the date hereof, the name of the following Companies, unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Companies will be dissolved :—

S. No.	Company No.	Name of the company
1.	16887	M/s. Indo Overseas Marine Private Limited.
2.	18223	M/s. Embassy Home Holdings Private Limited.
3.	18252	M/s. Global Vision Services Limited.

T.S.D. PRASADA RAO
Asstt. Registrar of Companies,
Karnataka

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies.

Bangalore-560034, the 21st October 2003

No. JTA/PS/560(3)/2003-04—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of the following Companies, unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Companies shall be dissolved :—

S. No.	Company No.	Name of the company
1.	27231	M/s. Reethu Investments Private Limited.
2.	24287	M/s. Stellar Solutions (India) Private Limited.
3.	26934	M/s. LM Glas liber Rotor Private Limited.
4.	24709	M/s. Aravalli Chem Plast Private Limited.
5.	24696	M/s. Sahyadri Moulds Private Limited.
6.	24695	M/s. Sapthagiri Investments Private Limited.

T.S.D. PRASADA RAO
Asstt. Registrar of Companies,
Karnataka

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Ezeplanet Technologies Private Limited.

Bangalore-560034, the 21st October 2003

No. CO. No. 27299/JTA/PS/560(5)/03-04—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Ezeplanet Technologies Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved.

T.S.D. PRASADA RAO
Asstt. Registrar of Companies,
Karnataka

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Global Softline Systems Limited.

Bangalore-560034, the 21st October 2003

No. JTA/PS/Co. No. 27734/560(3)/03-04—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560

of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Global Softline Systems Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

T.S.D. PRASADA RAO
Asstt. Registrar of Companies,
Karnataka

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Geetchand Investments Private Limited.

Chennai-600006, the 14th October 2003

No. 29116/560(3)/PC. III/2003—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Geetchand Investments Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

S. MEENAKSHI
Asstt. Registrar of Companies,
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Omkar Publishers Private Limited.

Panaji, the 13th October 2003

No. 24-001873/G/1787—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Omkar Publishers Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved.

G. K. PURWAR
Registrar of Companies,
Goa, Daman & Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Multiple Safe Life Private Limited.

Panaji, the 13th October 2003

No. 24-003104/G/1790—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Multiple Safe Life Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved.

G. K. PURWAR
Registrar of Companies,
Goa, Daman & Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and
Application Under Fast Track Scheme under
section 560 of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Creative Plastics Private Limited.

Panaji, the 13th October 2003

No. 56--02474/G/u/s 560(5)/1796—Notice is hereby
given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the
Companies Act, 1956 that the name of M/s. Creative
Plastics Private Limited has this day been struck off from
the Register and the said Company is dissolved.

G. K. PURWAR
Registrar of Companies,
Goa, Daman & Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Goa Extruders Private Limited.

Panaji, the 13th October 2003

No. 24-000545/G/1800—Notice is hereby given pursuant
to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act,
1956 that the name of M/s. Goa Extruders Private Limited
has this day been struck off from the Register and the said
Company is dissolved.

G. K. PURWAR
Registrar of Companies,
Goa, Daman & Diu